

Unit-1

Q1. अोड़ाशय से स्नावित होने वाले हमीन्स के जैव-संश्लेषण पर प्रकाश डालिए

अध्यवा

संश्लिष्ट इंट्रपोरी ब्रिक्सर (डोई-2)

- ① हॉमोन की क्रियाविधि
- ② इन्सुलिन हॉमोन व उसके कार्य
- ③ हॉमोन की क्रियाविधि

Unit-2

Q2. मनुष्य में माहा वर्तन तंत्र का स्थिर तरीका ब्रिक्सर

अध्यवा

संश्लिष्ट इंट्रपोरी ब्रिक्सर (डोई-2)

- ① स्सट्रोल सायडल (Oestrogen cycle)
- ② शुक्राणुबन्नन व अोड़ाप्राणुबन्नन
- ③ माहा में दुग्धस्नाव का क्रिया

Unit-3

Q3. बोडे के जैव विकास को ब्रूम से समझाइए।

अध्यवा

संश्लिष्ट इंट्रपोरी ब्रिक्सर (डोई-2)

- ① विभीन्नताएं
- ② उपरिवर्तन
- ③ पृथक्करण
- ④ अम्लाभ्यं खिद्दांत

### Unit-1

Q. 1. पाणी में इक्सन तंत्र का वर्णन कीजिए।

अथवा

सांकेतिक इतिहासी हिस्टोरी (डोई 2)

1. दौत की संरचना
2. स्तनियों के बादा दुःखात का नाम हिस्टोरी
3. 2-तनादारी, पहरी की लंबा डा थेवर नामित चित्र बनाइए

### Unit-2

Q. 2. सरीसृप पश्चि रखने स्तनी की अंस मेखलाओं का तुलनात्मक वर्णन कीजिए।

अथवा

इतिहासी हिस्टोरी (डोई 2)

- (1) उभययंत्र, सरीसृपे के दृद्य का तुलगत्मक विवरण
- (2) वैरेनस पश्चि, को औरों मेखला का तुलनात्मक विवरण।
- (3) क्षेत्रों के उत्तर्जी अंगों का तुलगत्मक वर्णन

### Unit-3

Q. 3. स्कॉलिओडोन को ड्रेनियल टंकिंग का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

अथवा

सांकेतिक इतिहासी हिस्टोरी

- (1) स्पाइनल डाई
- (2) थेप्यमसे रखे अवनाशाय
- (3) पिट्युटरी ग्रहिय